

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सूचना

दि.वि.प्रा. के खेल परिसरों और गोल्फ कोर्सों हेतु सचिवों की नियुक्ति

1. दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में 15 खेल परिसर एवं 2 गोल्फ कोर्स विकसित किए हैं तथा यह उनका संचालन भी करता है। दि.वि.प्रा. इन सुविधाओं के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को सचिव के रूप में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव करता है:
 - i) लेफ्टिनेंट कर्नल (अथवा नेवी/एयर फोर्स के समकक्ष) और उससे ऊपर के रैंक के ऐसे सेवा-निवृत्त अधिकारी, जो खेल पृष्ठभूमि से हों एवं जिनके पास इस प्रकार के क्लब/संस्थाओं के संचालन का अनुभव हो।
 - ii) ऐसे खिलाड़ी, जिन्होंने खेलों से संबद्ध फेडरेशन/एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त राज्य/राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में उच्च स्तर पर स्वर्ण, रजत अथवा कांस्य पदक (प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान) जीता हो एवं वह खेल, जिसमें अभ्यर्थी ने भाग लिया हो, वह दि.वि.प्रा. के खेल परिसरों/गोल्फ कोर्सों (खेलों के नाम दि.वि.प्रा की वेबसाइट www.dda.org.in के वेब पेज अर्थात् सार्वजनिक सूचना/टेंडर पर उपलब्ध हैं) में होना चाहिए। खेल श्रेणी में आवेदन कर रहे आवेदकों को खेलों के क्षेत्र में सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में प्रशासनिक/प्रबंधन स्तर पर काम करने का न्यूनतम पाँच वर्षों का पूर्व अनुभव होना चाहिए।
 - iii) दि.वि.प्रा. के अधिकारियों सहित ऐसे सभी सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी जो 7600/- रुपये और उससे अधिक (7 वें केंद्रीय वेतन आयोग के स्तर 12 और उससे अधिक के समकक्ष) ग्रेड वेतन में सेवानिवृत्त हुए हों, जो दि.वि.प्रा. में निदेशक और अधीक्षण अभियंता के समकक्ष हों और खेल में प्रमाणित प्रत्यायक (प्रूवन् क्रिडेन्शियल्स हों) अथवा बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल के मैदानों के विकास और रख-रखाव में शामिल रहे हों।
2. मासिक मानदेय निम्न प्रकार से देय होगा:-

क.	सचिव (समन्वय)	रु 71,400/-
ख.	सचिव, कुतुब गोल्फ कोर्स	रु 1,20,000/- (समेकित)
ग.	सचिव-डिवीजन स्तर के खेल परिसर	रु 64,400/-
घ.	सचिव-जिला स्तरीय खेल परिसर	रु 56,000/-
3. प्रतिमाह 8,000/- रु यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा।
4. मानदेय एवं भत्तों में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की जाएगी।
5. ऐसे व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं जिनकी आयु दिनांक 30.09.2018 को पैरा 1(i) में उल्लिखित श्रेणी में 60 वर्ष से अधिक ना हो और पैरा 1(ii) व (iii) में उल्लिखित श्रेणी में 63 वर्ष से अधिक न हो एवं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में रहते हों।
6. संक्षिप्त विवरण, आवास एवं आयु के प्रमाण की प्रति, पासपोर्ट आकार की नवीनतम फोटो, फोन नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. के साथ आवेदन पत्र आयुक्त (खेल), दि.वि.प्रा., ब्लॉक-बी, चौथी मंजिल, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 (दूरभाष नं. 24623598) को दिनांक 05.10.2018 तक भेजे जा सकते हैं। इसकी एक प्रति ई-मेल द्वारा commrsports@dda.org.in पर भी भेजी जाए।
7. चयनित अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से वार्षिक अनुबंध आधार पर नियुक्त किया जाएगा। अनुबंध में वार्षिक विस्तार उनके कार्य निष्पादन के आधार पर किया जाएगा। अनुबंध पर की गई नियुक्ति को किसी भी पक्ष द्वारा 30 दिनों के नोटिस द्वारा समाप्त किया जा सकता है। कार्यकाल की अधिकतम अवधि 10 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु होने तक, जो भी पहले हो, होगी।

आयुक्त (खेल), दि.वि.प्रा.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के खेल परिसरों/गोल्फ कोर्सों में उपलब्ध खेल

- तीरंदाजी
- एथलेटिक्स
- बैडमिंटन
- बास्केटबॉल
- बिलियर्डस/स्नूकर
- क्रिकेट
- फुटबॉल
- गोल्फ
- जिमनास्टिक
- हॉकी
- लॉन बॉल्स
- शूटिंग(10 मी. एयर राइफल/पिस्टल)
- रोलर स्केटिंग
- स्कवॉश
- स्वीमिंग
- वालीबॉल
- टेबल टेनिस
- ताइक्वॉन्डो
- टेनिस
- वेट ट्रेनिंग (फिटनेस सेंटर)
- योग